



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 जुलाई, 2023

आषाढ़ 22, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 30/2023-1076-77-3099-73-2023

लखनऊ, 13 जुलाई, 2023

अधिसूचना

प0आ0-406

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1976) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2484/77-3-11-94 भा0-07टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 का आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल एक प्राधिकरण का गठन करती हैं, जिसे "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)" कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य-सचिव
(ग)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम-निर्देशिनी, जो संयुक्त सचिव से निम्न रैंक का न हो	सदस्य
(घ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम-निर्देशिनी, जो संयुक्त सचिव से निम्न रैंक का न हो	सदस्य
(ङ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम-निर्देशिनी, जो संयुक्त सचिव से निम्न रैंक का न हो	सदस्य

(च)	सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
(छ)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर	सदस्य
(ज)	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सहायक सदस्य-सचिव

2-पूर्वोक्त प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ होगा।

आज्ञा से,
नरेन्द्र भूषण,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 30/2023/1076 /LXXVII-3099-73-2023, dated July 13, 2023:

No. 30/2023/1076 /LXXVII-3099-73-2023

Dated Lucknow, July 13, 2023

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and in partial modification of Government notification no. 2484/77-3-11-94-Bha-07T.C., dated 22nd December, 2011, the Governor is pleased to constitute an authority to be called as the "Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA)" consisting of the following name:-

(A)	The Infrastructure & Industrial Development Commissioner to the Government of Uttar Pradesh	<i>Chairman</i>
(B)	The Chief Executive Officer, Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority	<i>Member-Secretary</i>
(C)	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Public Works Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary	<i>Member</i>
(D)	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Avas Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary	<i>Member</i>
(E)	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Finance Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary	<i>Member</i>
(F)	Secretary/Special Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Infrastructure & Industrial Development Department	<i>Member</i>
(G)	The Chief Executive Officer, Uttar Pradesh State Industrial Development Authority, Kanpur	<i>Member</i>
(H)	Addl. Chief Executive Officer, Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority	<i>Assitant Member-Secretary</i>

2. The headquarter of the aforesaid Authority shall be at Lucknow.

By order,
NARENDRA BHOOSHAN,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 445 राजपत्र-2023-(1445)-599+50=649 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।